

बीईएमएल - श्री डी के होता ने सीएमडी स्वरूप भारग्रहण लिया

श्री डी के होता, बीईएमएल के निदेशक (मानव संसाधन) ने आज कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अपना भारग्रहण कर लिया है।

पदभार ग्रहण करने पर, श्री होता ने कहा, "मुझे विश्वास है कि भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' अभियान हमारे बीईएमएल और भी विकसित होने के लिए एक सुनहरा अवसर है। दिए गए संभावित कौशल और अनुभव के साथ मुझे यकीन है कि कंपनी और अधिक ऊंचाइयों तक बढ़ेगी।"



बीईएमएल में शामिल होने के पहले श्री होता ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) में करीब 30 वर्ष की सेवा की है; वहाँ उन्होंने प्राकृतिक गैस प्रभाग के प्रमुख के रूप में अपना अंतिम पद संभाला। वे अर्थ शास्त्र (ऑनर्स) के स्नातक प्राप्त किए सेंट स्टीफंस के पूर्वछात्र हैं तथा एक्सएलआरआई, जमशेदपुर से मानव संसाधन में एमबीए की डिग्री रखें हैं।

बीईएमएल, मई 1964 में स्थापित रक्षा सार्वजनिक उपक्रम एक मिनी-रत्न श्रेणी - I की सूचीबद्ध कंपनी है, जिसकी 54 प्रतिशत की पूंजी भारत सरकार द्वारा धारित है।

एक अत्यंत प्रतिस्पर्धी परिवेश में खनन और निर्माण, रक्षा, और रेल और मेट्रो तीनों प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रेंज के उत्पादों के डिजाइन, विनिर्माण और विपणन में सिद्ध क्षमता के साथ यह एक विविध भारी इंजीनियरिंग समूह है। बीईएमएल के चार प्रमुख विनिर्माण कॉम्प्लेक्स हैं, जो बेंगलूरु, केजीएफ, मैसूर और पालक्काड़ में स्थित हैं और इसके देश भर में बेहतर विपणन और सर्विसिंग नेटवर्क भी है।

कंपनी ने अतीत में 3,600 करोड़ रुपये से अधिक की वार्षिक कुल बिक्री हासिल की थी और निकट भविष्य में बृहत विकास की उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है।

बेंगलूर

01.07.2016

बीईएमएल लिमिटेड का रिलीस